

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-03072024-255116
SG-DL-E-03072024-255116असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2024/आषाढ 12, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 89
No. 171]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2024/ASHADHA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 89

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2024

फा. सं. 3/03/हेस्मा/2017/गृह पुलिस-II/1529-1539.—जबकि, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 03.01.2024 की अधिसूचना सं० फा० 3/03/हेस्मा/2017/गृह पुलिस-II/26-36 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल बिजली की आपूर्ति एवं वितरण में लगे हुए बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के बिजली कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु ऐसे कर्मचारियों और इंजीनियरों के हड़ताल को प्रतिबंधित करते हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 03.07.2024 तक वैध है।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि जनहित में बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ-साथ आउटसोर्स/संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.93 की अधिसूचना सं० जी एस आर 526(अ) के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक यथा विस्तारित हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं० 40) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4क के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं तथा दिल्ली में बिजली सेवा प्रदाताओं बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पावर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ साथ आउटसोर्स/संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल को अन्य छः माह की अवधि के लिए दिनांक 04.07.2024 से 03.01.2025 तक प्रतिबंधित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव

HOME POLICE-II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2024

F. No. 3/03/HESMA/2017/HP-II/1529-1539.—Whereas vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi notification No. F.3/03/HESMA/2017/HP-II/26-36 dated 03.01.2024, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi declared the services of Electricity Employees and Engineers of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), engaged in the supply and distribution of Power, as essential Services and prohibited the strike of such Employees and Engineers for maintaining Services necessary for the people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 03.07.2024.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Engineers and Electricity Employees (both on the rolls as well as outsourced/contractual) of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation).

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services and prohibits the strike by Engineers and Electricity Employees (both on the rolls as well as outsourced/contractual) of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), the power service providers in Delhi for another period of six months w.e.f. 04.07.2024 upto 03.01.2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy.